

1. India and Vietnam inked three pacts, including one on nuclear cooperation, and resolved to jointly work for an open Indo-Pacific, while calling for a rules-based regional architecture.
भारत और वियतनाम ने नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था का आह्वान करते हुये भारत- प्रशांत क्षेत्र को खुला रखने का संयुक्त रूप से संकल्प व्यक्त किया और परमाणु सहयोग सहित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
2. Reliance Energy had partnered with the Department of Posts to allow customers to pay their electricity bills at post offices along with other modes of payment.
रिलायंस एनर्जी ने ग्राहकों की सुविधा के लिये बिजली बिलों का भुगतान करने के वास्ते डाक विभाग के साथ गठबंधन किया है। उसके ग्राहक अब अन्य माध्यमों के अलावा डाकघर के जरिये भी बिजली के बिल चुका सकेंगे।
3. Actor-politician Shatrughan Sinha has been honored with a lifetime achievement award for his contribution to the fields of arts and politics at a ceremony in the UK's Parliament complex in London.
अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा को कला और राजनीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटिश संसद परिसर में आयोजित एक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया।
4. The Indian combine of Pankaj Advani and Manan Chandra staged a remarkable recovery to beat Pakistan in the final of the inaugural IBSF Snooker Team World Cup.
पंकज आडवाणी और मनन चंद्रा की भारतीय जोड़ी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहले आईबीएसएफ स्नूकर टीम विश्व कप का खिताब जीत लिया।
5. Ace wrestler Navjot Kaur scripted history by becoming the first Indian woman wrestler to win a Gold medal in the Senior Asian Championships as she clinched the yellow metal in the 65kg freestyle category in Bishkek, Kyrgyzstan.
भारतीय पहलवान नवजोत कौर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में जापान की मिया इमाई को मात देकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही।
6. Sri Vijayendra Saraswathi, who was the junior pontiff of the Kanchi Mutt, has assumed charge as its chief consequent to the passing away of 69th head Shankaracharya Jayendra Saraswathi.
कांची मठ के 69वें प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के निधन के बाद उनके कनिष्ठ श्री विजयेंद्र सरस्वती ने पीठाधपति का कार्यभार संभाला।
7. ArcelorMittal has entered into a joint venture pact with Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) to jointly acquire the assets of Essar Steel.
इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने निप्पन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉरपोरेशन (एनएसएसएमसी) के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
8. Olympian Adille Sumariwalla was re-elected as president of the Maharashtra Athletics Association while Satish Uchil has become the new general secretary.
ओलंपियन आदिल सुमरीवाला को महाराष्ट्र एथलेटिक्स संघ का फिर से अध्यक्ष चुना गया है जबकि सतीश उचिल इसके नए महासचिव बने।



NOW PURCHASE ONLINE
SPEED TEST CARD
• myshop.mahendras.org •

Write us -
content@mahendras.org

 Mahendra'sTM

 Mahendra'sTM